


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 1970/कार्तिक 21, 1892

No. 196] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 1970/KARTIKA 21, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November 1970

G.R.R. 1899 Ess.Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted, hereby fixes the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factories specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of their factories or at any purchasing centre during the year 1970-71 (1st October, 1970 to 30th September, 1971).

Provided that,—

(i) in the case of sugarcane delivered at any purchasing centre,—

- (a) if the sugarcane is transported to the factory by the owner by rail, a rebate of thirty-two paise per quintal shall be made from the aforesaid minimum price ;or
- (b) if the sugarcane is transported to the factory by road in the transport of the owner a rebate not exceeding 2.5 paise (two and a half paise) per quintal per kilometre

(891)

subject to a maximum of thirty-two paise per quintal, shall be made from the aforesaid minimum price, subject to the condition that a certificate regarding the actual distance from the purchasing centre concerned to the factory and the rate per kilometre applicable in that case on the basis of which the rebate is charged, is obtained from the Central Government, or the State Government or the Director of Agriculture, the Cane Commissioner or the District Magistrate within their respective jurisdiction;

Explanation.—For the purpose of clause (b), a distance of less than half a kilometre shall be ignored while a distance of more than half a kilometre, but less than one kilometre, shall be counted as one kilometre;

- (ii) the Central Government or the State Government or the Cane Commissioner or the Director of Agriculture, as the case may be, may allow a suitable rebate in the aforesaid minimum price for burnt cane supplied to factories within their respective jurisdictions, subject to the condition that the rebate so allowed does not exceed the reduction in price on account of the estimated shortfall in the recovery of sugar from burnt cane;
- (iii) where the sugarcane is brought bound in bundles and weighed as such, the Central Government or the State Government or the Cane Commissioner or the Director of Agriculture, may within their respective jurisdictions, allow a suitable rebate in regard to the weight of the binding material not exceeding 0.625 kilogram per quintal of sugarcane; and
- (iv) the Central Government, or with the approval of the Central Government, the State Government or any officer or authority of the Central Government or State Government may allow a suitable rebate in the aforesaid minimum price for any other valid reasons to be specified by the said Governments, officer or authority.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in Rupees per quintal
(1)	(2)	(3)

HARYANA

1.	The Saraswati Sugar Mills, P.O. Yamunanagar, Distt. Ambala	7.37
2.	The Haryana Cooperative Sugar Mills Ltd., Rohtak P.O., Distt. Rohtak	7.37
3.	The Panipat Cooperative Sugar Mills Ltd., Panipat P.O., Distt. Karnal	7.37

PUNJAB

1.	The Morinda Cooperative Sugar Mills Ltd., Morinda, Distt. Rupar	7.37
2.	The Jagatjit Sugar Mills Co. Ltd., Phagwara, Distt. Kapurthala	7.37
3.	The Malwa Sugar Mills Co. Ltd., Dhuri, Distt. Sangrur	7.37
4.	The Janta Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhogpur P.O., Distt. Jullundur	7.37
5.	The Doaba Cooperative Sugar Mills Ltd., Nawanshahr, Distt. Jullundur	7.37
6.	The Batala Cooperative Sugar Mills Ltd., Batala, Distt. Gurdaspur	7.37

(1)	(2)	(3)
UTTAR PRADESH		
1. The Modi Sugar Mills (Prop. The Modi Industries Ltd.), Modinagar, Distt. Meerut		8.16
2. Ram Laxmin Sugar Mills, P.O. Mohiuddinpur, Distt. Meerut		8.16
3. Jaswant Sugar Mills Ltd., Meerut City, Distt. Meerut		7.90
4. Daurala Sugar Works, Daurala, Distt. Meerut		8.03
5. Diwan Sugar & General Mills Private Ltd., P.O. Sakhoti Tanda Distt. Meerut		7.50
6. Mawana Sugar Works, Mawana, Distt. Meerut		7.96
7. The Bagpat Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Bagpat, Distt. Meerut		7.77
8. The Simbhaoli Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Simbhaoli, Distt. Meerut		7.83
9. The Upper India Sugar Mills Ltd., Khatauli, Distt. Muzaffarnagar		7.77
10. Sir Shadi Lal Sugar & General Mills Ltd., Mansurpur, Distt. Muzaffarnagar		7.50
11. The Amritsar Sugar Mills Co. Ltd., Rohanakalan, P.O. Rohana Mills, Distt. Muzaffarnagar		7.37
12. The Upper Doab Sugar Mills Ltd., Shamli, Distt. Muzaffarnagar		7.37
13. The Pannijee Sugar & General Mills Co., Panninagar, Distt. Bulandshahr		7.44
14. Shri Janki Sugar Mills & Co., Doiwala, Distt. Dehradun		7.37
15. The Ganga Sugar Corporation Ltd., Deoband, Distt. Saharanpur		7.63
16. The Lord Krishna Sugar Mills Ltd., Saharanpur, Distt. Saharanpur		7.50
17. Kisan Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O. Sarsawa, Distt. Saharanpur		7.44
18. Rai Bahadur Nurain Singh Sugar Mills Pvt. Ltd., Lhaksar, Distt. Saharanpur		7.57
19. The Mahalakshmi Sugar Mills Co. Ltd., Iqbalpur P.O., Distt. Saharanpur		7.57
20. Shiv Prasad Banarsidas Sugar Mills, Bijnor, Distt. Bijnor		7.37
21. Upper Ganges Sugar Mills Ltd., Seohara, Distt. Bijnor		7.70
22. The Dampur Sugar Mills Ltd., P.O. Dampur, Distt. Bijnor		7.57
23. The Ajudhia Sugar Mills, P.O. Raja-ka-Sahaspur, Distt. Moradabad		7.57
24. Kundan Sugar Mills, Amroha, Distt. Moradabad		7.37
25. Raza Bulaal Sugar Co. Ltd., P.O. Rampur, Distt. Rampur		7.37
26. H.R. Sugar Factory Pvt. Ltd., Bareilly, Distt. Bareilly		7.50
27. The Kesar Sugar Works Ltd., Baheri, Distt. Bareilly		7.57

(1)	(2)	(3)
28.	Rosa Sugar Works of Carew & Co. Ltd., Rosa, Distt. Shahjahanpur	7'37
29.	L.H. Sugar Factories & Oil Mills Pvt. Ltd., Pilibhit, Distt. Pilibhit	7'37
30.	The Kisan Cooperative Sugar Factories Ltd., Majhola, Distt. Pilibhit	7'63
31.	L.H. Sugar Factories & Oil Mills Pvt. Ltd., Kashipur, Distt. Nainital	7'37
32.	The Bazpur Cooperative Sugar Factory Ltd., Bazpur, Distt. Nainital	7'90
33.	The Neoli Sugar Factory, Manpurnagar, P.O. Neoli, Distt. Etah	7'57
34.	The Oudh Sugar Mills Ltd., Hargaon, Distt. Sitapur	7'63
35.	The Lakshmi Sugar Mills Pvt. Ltd., Maholi, Distt. Sitapur	7'63
36.	The Seksaria Biswan Sugar Factory Pvt. Ltd., Biswan, Distt. Sitapur	7'50
37.	The Hindustan Sugar Mills Ltd., Gola gokarannath, Distt. Kheri	7'37
38.	The Gobind Sugar Mills Ltd., P.O. Aira Estate, Distt. Kheri	7'70
39.	The Lakshmi Sugar & Oil Mills Ltd., Hardoi, Distt. Hardoi	7'50
40.	The United Provinces Sugar Co. Ltd., Seorahi P.O., Distt. Deoria	7'37
41.	Shree Sitaram Sugar Co. Ltd., Baitalpur P.O., Distt. Deoria	7'77
42.	Cawnpore Sugar Works Ltd., Gauri Factory Branch, P.O. Gauribazar, Distt. Deoria	7'96
43.	Deoria Sugar Mills Ltd., Deoria, Distt. Deoria	7'77
44.	The Shankar Sugar Mills Ltd., Captainganj, Distt. Deoria	7'37
45.	The Vishnu Pratap Sugar Works (P) Ltd., P.O. Rajabazar Khadda, Distt. Deoria	7'37
46.	Lakshmi Devi Sugar Mills Pvt. Ltd., Chhitauni, Distt. Deoria	7'50
47.	The Ishwari Khetan Sugar Mills Ltd., Lakshmiganj, Distt. Deoria	7'37
48.	The Ramkola Sugar Mills, Co. Ltd., Ramkola, Distt. Deoria	7'63
49.	The Maheshwari Khetan Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Ramkola, Distt. Deoria	7'37
50.	Cawnpore Sugar Works Ltd., Padrauna Factory Branch, P.O. Padrauna, Distt. Deoria	7'37
51.	Cawnpore Sugar Works Ltd., Kathkuiyan Factory Branch, P.O. Kathkuiyan, Distt. Deoria	7'44
52.	The Purnabpore Co. Ltd., P.O. Maiyawa, Distt. Deoria	7'63
53.	Kamlapat Motilal, Bhatni (Sugar Mills) Branch, P.O. Bhatni, Distt. Deoria	7'57
54.	Saraya Sugar Mills Private Ltd., Sardarnagar, Distt. Gorakhpur	7'83
55.	Diamond Sugar Mills Ltd., Pipraich, Distt. Gorakhpur	7'57
56.	The Punjab Sugar Mills Co. Ltd., Ghughli, Distt. Gorakhpur	7'57
57.	Mahabir Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Siswabazar, Distt. Gorakhpur	7'44
58.	The Ganesh Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Anandnagar, Distt. Gorakhpur	7'70

(1)	(2)	(3)
49.	The Madho Mahesh Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Munderwa, Distt. Basti	7.70
50.	The Basti Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Walterganj, Distt. Basti	7.70
51.	The Basti Sugar Mills Co. Ltd., Basti, Distt. Basti	7.96
52.	Shree Anand Sugar Mills Ltd., Khalilabad, Distt. Basti	7.83
53.	The Seksaria Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Babnan, Distt. Gonda	7.83
54.	The Nawabganj Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Sugar Factory, Nawabganj, Distt. Gonda	7.70
55.	Balrampur Sugar Co. Ltd., Balrampur Factory Branch, Balrampur P.O., Distt. Gonda	7.70
56.	Tulsipur Sugar Co. Ltd., Tulsipur Factory Branch, Tulsipur P.O., Distt. Gonda	7.63
57.	R.B. Lachmandas Sugar & General Mills Pvt. Ltd., P.O. Jarwal Road, Distt. Bahraich	7.44
58.	The Burhwal Sugar Mills Co. Ltd., Burhwal, Distt. Barabanki	7.37
59.	Ramchand & Sons Sugar Mills Pvt. Ltd., Barabanki, Distt. Barabanki	7.37
70.	The Ratna Sugar Mills Co. Ltd., Shahganj, Distt. Jaunpur	7.44
71.	Kamlapat Motilal, Motinagar (Sugar Mills) Branch, P.O. Motinagar, Distt. Faizabad	7.44

BIHAR

1.	Lohat Sugar Works of the Darbhanga Sugar Co. Ltd., Lohat P.O., Distt. Darbhanga	7.37
2.	Sakri Sugar Works of the Darbhanga Sugar Co. Ltd., Sakri P.O., Distt. Darbhanga	7.37
3.	New India Sugar Mills Ltd., Hassanpur Road, P.O. Hassanpur Sugar Mills, Distt. Darbhanga	7.70
4.	Ryam Sugar Co. Ltd., Ryam Factory P.O., Distt. Darbhanga	7.37
5.	Samastipur Central Sugar Co. Ltd., Samastipur Factory Branch, P.O. Samastipur, Distt. Darbhanga	7.37
6.	Belsund Sugar Co. Ltd., Righa, P.O., Distt. Muzaffarpur	7.63
7.	The Motipur Sugar Factory Pvt. Ltd., Motipur, Distt. Muzaffarpur	7.37
8.	The Sitalpore Sugar Works Ltd., P.O. Garaul, Distt. Muzaffarpur	7.37
9.	Shree Hanuman Sugar and Industries Ltd., Motihari, Distt. Champaran	7.44
10.	Motilal Padampat Sugar Mills Co. Pvt. Lt., Majhaulia, Distt. Champaran	7.57
11.	Champaran Sugar Co. Ltd., Champatia Factory Branch, P. O. Champatia, Distt. Champaran	7.37
12.	Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd., Lauriya P. O., Distt. Champaran	7.37

(1)	(2)	(3)
13.	North Bihar Sugar Mills Ltd., Bagaha, P.O. Nalainpur, Distt. Champaran	7.37
14.	The New Swadeshi Sugar Mills Ltd., Narkatlaganj, Distt. Champaran	7.70
15.	Harinagar Sugar Mills Ltd., P.O. Harinagar, Distt. Champaran	8.10
16.	The Sugauli Sugar Works Pvt Ltd., P.O. Sugauli, Distt. Champaran	7.37
17.	Champaran Sugar Co. Ltd., Barrah Factory Branch, P.O. Barachakia, Distt. Champaran	7.37
18.	New Savan Sugar Mills, P.O. Siwan, Distt. Saran	7.70
19.	The Behar Sugar Works Branch of the Industrial Corporation Ltd., Pachrukhi, Distt. Saran	7.37
20.	Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd., Hathua, P. O. Mirganj, Distt. Saran	7.56
21.	Bharat Sugar Mills Ltd. Sidhwalia, P. O., Distt. Saran	7.54
22.	Cawnpore Sugar Works Ltd., Marhowrah Factory Branch, Marhowrah P.O., Distt. Saran	7.57
23.	Sasa Musa Sugar Works Pvt. Ltd., Sasa Musa P. O., Distt. Saran	7.37
24.	The Vishnu Sugar Mills Ltd., P. O., Vishnu Sugar Mills, Gopalganj, Distt. Saran	7.44
25.	Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd., P. O., Siwan, Distt. Saran	7.37
26.	The Furnea Cooperative Sugar Factory Ltd., Banmankhi, Distt. Furnea	7.37
27.	Guraju Chini Mills, P. O., Guraju Mills Distt. Gaya	7.37
28.	South Bihar Sugar Mills Ltd., Bihta, Distt. Patna	7.37

WEST BENGAL

1.	The Ramnugger Cane & Sugar Co. Ltd., Plassey P. O., Distt. Nadia	7.57
----	--	------

ASSAM

1.	The Assem Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O., Barua Bamungaon, Sub-Division, Golaghat, Distt. Sibsagar	7.37
----	--	------

ORISSA

1.	Jeypore Sugar Co. Ltd., Rayagada, Distt. Koraput	7.37
2.	The Aska Cooperative Sugar Industries Ltd., P. O., Aska, Distt. Ganjam	7.57

RAJASTHAN

1.	The Mewar Sugar Mills Ltd., Bhupalsagar, Distt. Udaipur	7.37
2.	The Ganganagar Sugar Mills Ltd., Sri Ganganagar, P. O., Distt. Sri Ganganagar	7.37
3.	Shri Keshoripatan Sahakari Sugar Mills Ltd., Bundi Road, P. O. Keshoripatan, Distt. Bundi	7.37

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

MADHYA PRADESH

1. The Gwalior Sugar Co. Ltd., P. O. Dabra, Distt. Gwalior	7-37
2. The Jaora Sugar Mills Pvt. Ltd., Jaora, Distt. Ratlam,	7-37
3. The Jiwaji Rao Sugar Co. Ltd., Dalauda, Distt. Mandsaur,	7-63
4. The Bhopal Sugar Industries Ltd., Sehore, Distt. Sehore,	7-37
5. Seth Govindram Sugar Mills, P. O. Mehidpur Road, Distt. Ujjain	7-77

MAHARASHTRA

1. The Saswad Mali Sugar Factory Ltd., P. O. Malinagar, Distt. Sholapur	7-83
2. The Brihan Maharashtra Sugar Syndicate Ltd., P. O. Shreepur, Distt. Sholapur	8-10
3. Yeshwant Shakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Akluj, Distt. Shloapur.	8-23
4. Shri Shankar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sadashivnagar, Taluka Malshiras, Distt. Sholapur	7-37
5. The Ravalgaon Sugar Farm Ltd., P. O. Ravalgaon, Distt. Nasik	8-10
6. Girna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P. O. Debhadi, Tal. Malegaon, Distt. Nasik	8-56
7. Niphad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P. O. Bhausahab Nagar, Distt. Nasik	8-49
8. The Godavari Sugar Mills Ltd., P. O. Sakarwadi, Distt. Ahmednagar	8-36
9. The Godavari Sugar Mills Ltd., P. O. Lakshmiwadi, Distt. Ahmednagar	8-69
10. Shree Changdeo Sugar Mills Ltd, P. O. Changdeo Nagar, Distt. Ahmednagar.	8-23
11. The Maharashtra Sugar Mills Ltd., P. O. Tilaknagar, Distt. Ahmednagar	8-69
12. The Kopargaon Sahakar Sakhar Karkhana Ltd., P. O. Kolpewadi, Distt. Ahmednagar	8-43
13. The Belapur Co. Ltd., P. O. Harigaon, Distt. Ahmednagar	8-69
14. The Pravara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P. O. Pravaranagar, Distt. Ahmednagar	8-23
15. Ashok Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Ashoknagar, P. O. Shrirampur, Distt. Ahmednagar	8-36
16. Genesh Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Geneshnagar, P. O. Ranjangaon Uhur, Distt. Ahmednagar	8-23
17. The Sanjiveni (Taki) Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P. O. Kopargaon, Distt. Ahmednagar	8-56
18. The Rahuri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shrishivajinagar, P. O. Rahuri Factory Branch, Distt. Ahmednagar	8-23
19. The Shrigonda Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shrigonda, Post Belvandi, Distt. Ahmednagar.	7-44

(1)	(2)	(3)
20.	Sangamner Bhag Sahakari Sakhar Karkhanan Ltd., Sangamner, Distt. Ahmednagar	7.57
21.	The Bhogiwati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P. O. Shahunagar, Distt. Kolhapur	9.22
22.	The Kolhapur Sugar Mills Ltd., Kasaba Bavada, P. O. Kolhapur, Distt. Kolhapur	8.89
23.	Shree Panchganga Sahakari Sekhar Karkhana Ltd., P. O. Ichalkaranji, Distt. Kolhapur	8.56
24.	Shree Warana Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P. O. Warananagar, Distt. Kolhapur	8.56
25.	Kumbhi-Kesari Sahakari Sakhar Karkhanan Ltd., P. O. Koparde, Distt. Kolhapur	8.89
26.	Dudhganga-Vedganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bidri, P. O. Mouninagar, Distt. Kolhapur	8.95
27.	Shri Datta Sahakari Gul Va Khandsari Shahar Utpadak Sanstha Ltd., Asrule, Tahsil Panhola, Distt. Kolhapur	7.37
28.	Walchandnagar Industries Ltd., P.O. Walchandnagar, Distt. Poona	7.77
29.	Shri Chhatrapati Shivaji Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Bhawaninagar, Distt. Poona	7.96
30.	The Malegaon Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Malegaon B.K., Distt. Poona	8.10
31.	Shree Someshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Nira, Distt. Poona	8.76
32.	Yeshwant Sahakari Sahakar Kharkhana Ltd., P.O. Theur, Taluka Haveli, Distt. Poona	8.23
33.	Gangapur Sugar Mills Ltd., P. O. Raghunathnagar, Distt. Aurangabad	7.90
34.	Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rethare Budruk, P.O. Shivanagar, Distt. Satara	9.22
35.	Shriram Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Phaltan, Distt. Satara	7.90
36.	The Phaltan Sugar Works Ltd., P.O. Sakharwadi, Distt. Satara	8.23
37.	Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Sangli, Distt. Sangli	8.36
38.	Terna Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dhoki Tal. and Distt. Osmanabad	8.36
39.	Kalambar Vibhag Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kalambar, Taluk Kandhar, Distt. Nanded	7.83
40.	Shri Panzara Kan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhadno, Taluka Sakri Distt. Dhulia	7.37
41.	The Walwa Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Islampur, Post Bargaon, District. Sangli	7.37

GUJARAT

1.	Shri Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Sardar Bag, Bardolki Distt. Surat	7.57
----	---	------

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Madhi Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Madhi, Distt. Surat.	7.90
3.	The Sshakari Khand Udyog Mandal Ltd., Gandevi Via Bilimora, Distt. Bulsar.	7.37
4.	Shree Bilashwar Khand Udyog Khand Sahakari Mandli Ltd., Kodinar, Distt. Amreli.	8.16
5.	Shree Una Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Gir Gadhada Road, Una (Sorath), Distt. Junagadh.	7.77

ANDHRA PRADESH

1.	The Kirlampudi Sugar Mills Ltd., Pithapuram Distt. East Godavari.	7.44
2.	Sri Sarvaraya Sugars Ltd., Chodavaram, Via Ramachandrapuram, Distt. East Godavari.	7.57
3.	The Deccan Sugar & Abkhari Co. Ltd., P. O. Samalkot, Distt. East Godavari.	7.50
4.	The Andhra Sugars Ltd., Tanuku, Distt. West Godavari.	7.37
5.	The Palakol Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., Palakol, Distt. West Godavari.	7.37
6.	V. J. S. Sugars (The Jeypore Sugar Co. Ltd.), P. O. Chagalla, Distt. West Godavari.	7.37
7.	Sivakanth Sugars Ltd., Tanuku, Distt. West Godavari.	7.37
8.	The Chodavaram Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., (Sugar Manufacturers), Chodavaram, Distt. Visakhapatnam.	7.63
9.	Anakapalle Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., Anakapalle P. O., Distt. Visakhapatnam.	8.03
10.	The Etikoppaka Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P. O. Etikoppaka, Distt. Visakhapatnam.	7.77
11.	The Chandava Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P. O. Payakaraopeta, Distt. Visakhapatnam.	8.03
12.	Sri Rama Sugars & Industries Ltd., Seethanagaram, Distt. Srikakulam.	7.50
13.	Sri Rama Sugars & Industries Ltd., Bobbili, Distt. Srikakulam.	7.50
14.	Amadalavalasa Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., Amadalavalasa P. O., Distt. Srikakulam.	7.83
15.	The K. C. P. Limited, Vuyyuru, Distt. Krishna.	7.37
16.	Challapalli Sugars Ltd., P. O. Challapalli, Distt. Krishna.	7.37
17.	The Nizam Sugar Factory Ltd., Shakarnagar, Distt. Nizamabad.	8.10
18.	The Nizamabad, Cooperative Sugar Factory Ltd., Nizamabad, Distt. Nizamabad.	7.57
19.	The Chittoor Cooperative Sugars Ltd., Chittoor, Distt. Chittoor.	7.37

TAMILNADU

1.	The Deccan Sugar & Abkhari Co. Ltd., P. O. Pugalur Sargar factory, Distt. Tiruchirappalli.	7.37
2.	Cauvery Sugars & Chemicals Ltd., Cauvery Factory, Pettavayalai, Distt. Tiruchirappalli.	7.37

(1)	(2)	(3)
3.	Kothar Sugars & Chemicals Ltd., Kattur, Railway Station Lal-gudi, Distt. Tiruchirapalli	7.37
4.	E.I.D. Parry Ltd., Nell kuppam F.O., Distt. South Arcot.	7.37
5.	The South India Steel and Sugars Ltd., Mundiyampakkam, Villu-puram Taluk, Distt. South Arcot.	7.37
6.	Aruna Sugars Ltd., Pennadam, Distt., South Arcot	7.37
7.	Kallakurichi Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Moongilthuripattu, Kallakurichi Taluk, Distt. South Arcot.	7.37
8.	The Madura Sugars & Allied Products Ltd., Pandiarajapuram P.O., Distt. Madurai.	7.37
9.	The National Cooperative Sugar Mills Ltd., A-2731, Alanganallur Post, Distt. Madurai.	7.37
10.	The Thiru Arooran Sugars Ltd., P.O. Vadapathimangalam, Distt. Tanjore.	7.37
11.	Amaravathi Cooperative Sugar Mills Ltd., A.K. Puthur P.O., Via. Kanayur, Distt. Coimbatore.	7.37
12.	The Sakthi Sugars Limited, P.O. Appakudal Distt. Coimbatore.	7.37
13.	North Arcot Distt. Cooperative Sugar Mills Ltd., Vadapudupet, Ambur P.O., Distt. North Arcot.	7.37
14.	Palar Sugars (Private) Limited, Mailpatti, North Arcot District.	7.37
15.	The Madurantakam Cooperative Sugar Mills Ltd., Padalam, Distt. Chingleput.	7.37
16.	The Salem Cooperative Sugar Mills Ltd., Mohanur, Via Karur (Namakkal Taluk) Distt. Salem	7.37

MYSORE

1.	The Mysore Sugar Co., Ltd., Mandya, Distt. Mandya.	7.50
2.	Pandavapura Sahakara Saklare Karkhane Ltd., Pandavapura Distt. Mandya.	8.49
3.	The India Sugars & Refineries Ltd., Hospet, Distt. Bellary	7.37
4.	The Bellary Central Cooperative Stores, Sugar Factory, Kampli P.O., Distt. Bellary.	7.50
5.	The Salar Jung Sugar Mills Ltd., Munirabad, Distt. Raichur.	7.47
6.	The Ugar Sugar Works Ltd. P.O., Ugar Khurd, Distt. Belgaum.	8.10
7.	Shri Hanayakeshi Sahakara Saklare Karkhane Niyemiti Sankesh-war, Distt. Belgaum.	8.69
8.	Turghbade Sugar Works (Private) Ltd., Shimoga, Distt. Shimoga.	7.77
9.	Gauribidanur Sahakara Saklare Karkhane Ltd., Gauribidanur, Distt. Kolar.	7.83
10.	The Bidar Sahakara Saklare Karkhane Ltd., Bidar, Distt. Bidar.	7.90

KERALA

1.	The Travancore Sugars & Chemicals Ltd., Pamba River Factory, Tiruvalla P.O., Distt. Quilon.	7.37
2.	The Mannem Sugar Mills Cooperative Ltd., No. 4324, Pandalam P.O., Distt. Alleppey.	7.37

(1)	(2)	(3)
3.	The Cooperative Sugars Ltd., Chittur, P.O. Menonpara, Distt. Palghat.	7.50
PONDICHERRY		
	New Horizon Sugar Mills Co. Ltd., Sacnur (Ariour), Pondicherry.	7.37

[No. 3-16/69-S. Py.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

लाघ कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(लाघ विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1970

सा० का० नि० 1899—/ई एस एस. कोम/ईल.—ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझती है, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एतद्-पाषण सूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त सूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविशिष्टियों में विनिर्दिष्ट निर्वात पाल प्रक्रम ईख कारखानों के स्वामियों द्वारा या उनके अभिकर्तृभिों द्वारा उनके कारखानों के दरवाजों पर या खरीदवाले किसी केन्द्र पर 1970-71 (1 अक्टूबर, 1970 से 30 सितम्बर, 1971 तक) के दौरान परिदत्त की गई ईख के लिए देय होगी ;

परन्तु,—

(i) ईख को खरीद के किसी केन्द्र पर परिदत्त करने की दशा में—

(क) यदि ईख कारखाने में स्वामी द्वारा रेल से ले जायी जाती हो तो उपर्युक्त न्यूनतम कीमत में से 32 पैसे प्रति बिबंटल का रिबेट दिया जाएगा ; या

(ख) यदि ईख कारखाने में स्वामी के परिवहन से सड़क के जरिए लायी जाती है तो रिबेट प्रति बिबंटल प्रतिकिलों मीटर अढ़ाई पैसे की दर से अधिक नहीं होगी और अधिकतम प्रति बिबंटल 32 पैसे तक दी जाएगी ; लेकिन यह उस हालत में दी जाएगी जब ईख का मालिक एक प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार, या निदेशक कृषि, गन्ना आयुक्त या जिलाधीश से अपनी-अपनी अधिकारता में, इस आशय का प्राप्त कर लेता है कि खरीद के केन्द्र से कारखाने तक की वस्तुतः दूरी इतनी है और उसमें लागू होने वाली प्रति किलो मीटर की दर जिसके आधार पर रिबेट चार्ज किया जाता है इतनी है ।

स्पष्टीकरण—खंड (ख) के प्रयोजन के लिए आधी किलोमीटर से कम दूरी को छोड़ दिया जाएगा लेकिन आधी किलोमीटर से अधिक और एक किलोमीटर से कम दूरी को एक किलोमीटर गिना जाएगा ।

- (ii) यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या गन्ना आयुक्त या निदेशक कृषि, अपनी-अपनी अधिकारिता में, कारखानों को भेजी गई मुलसी ईख के लिए उपर्युक्त न्यूनतम कीमत में उचित रिबेट मंजूर कर सकेंगे ; यह रिबेट इस बात के अध्यधीन होगी कि रिबेट उतने से अधिक न हो जितनी की मुलसी ईख से चीनी की उपलब्धि में प्रावकलित कमी के कारण कीमत में कमी होती हो ;
- (iii) जहां ईख बंडलों में लायी जाती हो और उसी हालत में ही तौली जाती हो, वहां के केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या गन्ना आयुक्त या निदेशक कृषि अपनी-अपनी अधिकारिता में, बंधी हुई सामग्री की तौल के संबंध में ईख में 0. 625 किलोग्राम से अनधिक तक प्रति क्विंटल के उचित रिबेट की मंजूरी दे सकेंगी ; और
- (iv) केन्द्रीय सरकार, या केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी किसी अन्य विधि-मान्य कारण से, जो उक्त सरकार, अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायेंगे, उपर्युक्त न्यूनतम कीमत में उचित रिबेट की मंजूरी दे सकेंगे ।

अनुसूची

क्रम संख्या	कारखाने का नाम	ईख की रूपों में प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत
1	2	3

हरियाणा:—

- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | दी सरस्वती सूगर मिल्स पो० ओ० यमुनानगर, जिला अम्बाला । | 7. 37 |
| 2 | दी हरियाणा को-ओपरेटिव सूगर मिल्स लि०, रोहतक पो० ओ० जिला रोहतक । | 7. 37 |
| 3 | दी पानीपत को-ओपरेटिव सूगर मिल्स लि०, पानीपत पो० ओ० जिला करनाल । | 7. 37 |

पंजाब

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | दी मोरिडा को-ओपरेटिव सूगर मिल्स लि० मोरिडा, जिला रोपड़ । | 7. 37 |
| 2 | दी जगजीत सूगर मिल्स कं० लि०, फगवाड़ा, जिला कपूरथला । | 7. 37 |

1	2	3
3.	दी मालवा सूगर मिल्स कं० लि०, धुरी, जिला संगरूर ।	7. 37
4.	दी जनता कोन्सोपरेटिव सूगर मिल्स लि०, भोगपुर पो० ओ०, जिला जालंधर ।	7. 37
5.	दी दोआब कोन्सोपरेटिव सूगर मिल्स लि०, नवां शहर, जिला जालंधर ।	7. 37
6.	दी बटाला कोन्सोपरेटिव सूगर मिल्स लि०, बटाला, जिला गुरदासपुर ।	7. 37

उत्तर प्रदेश

1.	दी मोदी सूगर, मिल्स, (प्रो० दी मोदी इन्डस्ट्रीज लि०) मोदीनगर, जिला मेरठ	8. 16
2.	राम लक्ष्मन सूगर मिल्स, पो० ओ० मोही उद्धीनपुर, जिला मेरठ ।	8. 16
3.	जसवंत सूगर मिल्स लि०, मेरठ सिटि, जिला मेरठ ।	7. 90
4.	दौराला सूगर बक्स, दौराला, जिला मेरठ ।	8. 03
5.	दिवान सूगर एण्ड जनरल मिल्स प्रा० लि०, पो० ओ० सखौती टांडा, जिला मेरठ ।	7. 50
6.	मवाना सूगर बक्स, मवाना, जिला मेरठ ।	7. 96
7.	दी बागपत कोन्सोपरेटिव सूगर मिल्स लि०, पो० ओ० बागपत, जिला मेरठ	7. 77
8.	दी सिम्भावली सूगर मिल्स प्रा० लि०, पो० ओ० सिम्भावली, जिला मेरठ	7. 83
9.	दी अपर इंडिया सूगर मिल्स लि०, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर	7. 77
10.	सर शादी लाल सूगर एण्ड जनरल मिल्स लि०, मनसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर।	7. 50
11.	दी अमृतसर सूगर मिल्स कं० लि०, राहन क्लां, पो० ओ० राहन मिल्स, जिला मुजफ्फरनगर	7. 37
12.	दी अपर दोआब सूगर मिल्स लि०, सामली, जिला मुजफ्फरनगर	7. 37
13.	दी पक्षीजी सूगर एण्ड जनरल मिल्स कं०, पक्षीनगर, जिला बुलन्दशहर	7. 44
14.	श्री जानकी सूगर मिल्स एण्ड कं०, डोईवाला, जिला देहरादून ।	7. 37
15.	दी गंगा सूगर कोरपोरेशन लि०, देवबंद, जिला सहारनपुर ।	7. 63
16.	दी लार्ड कृष्णा सूगर मिल्स लि०, सहारनपुर, जिला सहारनपुर ।	7. 50
17.	किसान कोन्सोपरेटिव सूगर फैक्ट्री लि०, पो० ओ० सरसवा, जिला सहारनपुर	7. 44
18.	राय बहादुर नारायण सिंह सूगर मिल्स प्रा० लि०, लक्सर, जिला सहारनपुर ।	7. 57
19.	दी महालक्ष्मी सूगर मिल्स कं० लि०, इकबालपुर पो० ओ०, जिला सहारनपुर	7. 57
20.	शिव प्रसाद बनारसीदास सूगर मिल्स, बिजनौर, जिला बिजनौर ।	7. 37

1	2	3
21.	अपर गंगेज सूगर मिल्स लि०, स्यौहरा, जिला बिजनौर ।	7. 70
22.	दी धामपुर सूगर मिल्स लि०, पो० ओ० धामपुर, जिला बिजनौर	7. 57
23.	दी अजूध्या सूगर मिल्स, पो० ओ० राजा-का-सहासपुर, जिला मुरादाबाद	7. 50
24.	कुन्दन सूगर मिल्स, अमरोहा, जिला मुरादाबाद ।	7. 37
25.	राजा बुलन्द सूगर कं० लि०, पो० ओ० रामपुर, जिला रामपुर	7. 37
26.	एच० आर० सूगर फैक्ट्री प्रा० लि०, बरेली, जिला बरेली	7. 50
27.	दी केसर सूगर वर्क्स लि०, बेहेरी, जिला बरेली ।	7. 57
28.	रोसा सूगर वर्क्स आफ करेव एन्ड कं० लि०, रोसा, जिला शहाजहापुर ।	7. 37
29.	एल० एच० सूगर फैक्ट्रीज एन्ड आइल मिल्स प्रा० लि०, पीलीभीत, जिला पीली भीत ।	7. 37
30.	दी किसान कोओपरेटिव सूगर फैक्ट्री लि०, मझोला, जिला पीली भीत ।	7. 63
31.	एल० एच० सूगर फैक्ट्रीज एन्ड आइल मिल्स प्रा० लि०, कशीपुर, जिला नैनीताल ।	7. 37
32.	दी बाजपुर कोओपरेटिव सूगर फैक्ट्री लि०, बाजपुर, जिला नैनीताल	7. 90
33.	दी नेवली सूगर फैक्ट्री मानपुरनगरीया, पो० ओ० नेवली, जिला एटा	7. 57
34.	दी अवध मिल्स लि०, हरगांव, जिला सीतापुर ।	7. 63
35.	दी लक्ष्मीजी सूगर मिल्स प्रा० लि०, महोनी, जिला सीतापुर ।	7. 63
36.	दी सक्सरिया बिस्वान सूगर फैक्ट्री प्रा० लि०, बिस्वान, जिला सीतापुर ।	7. 50
37.	दी हिन्दुस्तान सूगर मिल्स लि०, गोला गोकर्णनाथ, जिला खेड़ी ।]	7. 37
38.	दी गोविन्द सूगर मिल्स लि०, पो० ओ० पारा एस्टेट, जिला खेड़ी ।	7. 70
39.	दी लक्ष्मी सूगर एन्ड आइल मिल्स लि०, हरदोई, जिला हरदोई ।	7. 50
40.	दी यूना टेड प्राविन्सज सूगर कं० लि०, स्योराही पो० ओ०, जिला देवरिया ।	7. 37
41.	श्री सीताराम सूगर कं० लि०, बेतालपुर पो० ओ० जिला देवरि । ।	7. 77
42.	कानपुर सूगर वर्क्स लि०, गोरी फैक्ट्री ब्रांच, पो० ओ० गोरी बाजार, जिला देवरिया ।	7. 96
43.	देवरिया सूगर मिल्स लि०, देवरिया, जिला देवरिया ।]	7. 77
44.	दी शंकर सूगर मिल्स लि०, कैण्ठनगंज, जिला देवरिया ।	7. 37
45.	दी विष्णु प्रताप सूगर वर्क्स (प्रा०) लि०, पो० ओ० राजा बाजार खड्डा, जिला देवरिया ।	7. 37
46.	लक्ष्मी देवी सूगर मिल्स प्रा० लि० छितौनी, जिला देवरिया ।	7. 50

1	2	3
47.	दी ईश्वरी खैतान सूगर मिल्स लि०, लक्ष्मीगंज, जिला देवरिया ।	7. 37
48.	वी राम कोला सूगर मिल्स कं० लि०, रामकोला, जिला देवरिया ।	7. 63
49.	वी महेश्वरी खैतान सूगर मिल्स प्रा० लि०, पो० ओ० रामकोला, जिला देवरिया ।	7. 37
50.	कानपुर सूगर वर्क्स लि०, पड़रौना फैक्ट्री ब्रांच, पो० ओ० पड़रौना, जिला देवरिया ।	7. 37
51.	कानपुर सूगर वर्क्स लि०, काठकुई फैक्ट्री ब्रांच, पो० ओ० काठकुई, जिला देवरिया ।	7. 44
52.	वी पुरताबपुर कं० लि०, पो० ओ० भैरवा, जिला देवरिया ।	7. 63
53.	कमलापत मोतीलाल, भटनी (सूगर मिल्स) ब्रांच, पो० ओ० भटनी, जिला देवरिया ।	7. 57
54.	सराय सूगर मिल्स प्राइवेट लि०, सरदार नगर, जिला गोरखपुर ।	7. 83
55.	डाईमंड सूगर मिल्स लि०, पिपराइच, जिला गोरखपुर ।	7. 57
56.	दी पंजाब सूगर मिल्स कं० लि०, धुवनी, जिला गोरखपुर ।	7. 57
57.	महावीर सूगर मिल्स प्रा० लि०, पो० ओ० सिसवाबाजार, जिला गोरखपुर ।	7. 44
58.	दी गणेश सूगर मिल्स कं० लि०, पो० ओ० आनन्दनगर, जिला गोरखपुर ।	7. 70
59.	दी माधोमहेश सूगर मिल्स प्रा० लि०, पो० ओ० मुंढेरवा, जिला बस्ती ।	7. 70
60.	दी बस्ती सूगर मिल्स कं० लि०, पो० ओ० बाल्दरगंज, जिला बस्ती ।	7. 70
61.	दी बस्ती सूगर मिल्स कं० लि०, बस्ती, जिला बस्ती ।	7. 96
62.	श्री आनन्द सूगर मिल्स लि०, खलीलाबाद, जिला बस्ती ।	7. 83
63.	वी सेक्सरिया सूगर मिल्स प्रा० लि०, पो० ओ० बस्ती, जिला गोंडा ।	7. 83
64.	दी नवाबगंज सूगर मिल्स कं० लि०, पो० ओ० सूगर फैक्ट्री नवाबगंज, जिला गोंडा ।	7. 70
65.	बलरामपुर सूगर कं० लि०, बलरामपुर फैक्ट्री ब्रांच, बलरामपुर पो० ओ० जिला गोंडा ।	7. 70
66.	तुलसीपुर सूगर कं० लि०, तुलसीपुर फैक्ट्री ब्रांच, तुलसीपुर पो० ओ०, जिला गोंडा ।	7. 63
67.	आर० बी० लछनमनदास सूगर एंड जनरल मिल्स प्रा० लि०, पो० ओ० जरवाल रोड, जिला बहराइच ।	7. 44
68.	दी बुरहवाल सूगर मिल्स कं० लि०, बुरहवाल, जिला बाराबंकी ।	7. 37
69.	रामचन्द्र एंड सन्स सूगर मिल्स प्रा० लि०, बाराबंकी, जिला बाराबंकी ।	7. 37
70.	दी रतना सूगर मिल्स कं० लि०, शाहगंज, जिला जौनपुर ।	7. 44
71.	कमलापत मोतीलाल, मोती नगर (सूगर मिल्स) ब्रांच, पो० ओ० मोती नगर, जिला फैजाबाद ।	7. 44

1

2

3

बिहार

1.	लोहट सूगर वर्क्स आफ दी दरभंगा सूगर कं० लि०, लोहट पो० ओ०, जिला दरभंगा ।	7. 37
2.	सकरी सूगर वर्क्स आफ दी दरभंगा सूगर कं० लि०, सकरी पो० ओ०, जिला दरभंगा ।	7. 37
3.	न्यू इंडिया सूगर मिल्स लि०, हसनपुर रोड, पो० ओ० हसनपुर सूगर मिल्स, जिला दरभंगा ।	7. 70
4.	रयम सूगर कं० लि०, रयाम फैक्ट्री पो० ओ०, जिला दरभंगा ।	7. 37
5.	समस्तीपुर सेन्ट्रल सूगर कं० लि०, समस्तीपुर फैक्ट्री ब्रांच, पो० ओ० समस्तीपुर, जिला दरभंगा ।	7. 37
6.	बैलसुन्ड सूगर कं० लि०, रीघा पो० ओ० जिला मुजफ्फरपुर ।	7. 63
7.	दी सोतीपुर सूगर फैक्ट्री प्रा० लि०, मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर ।	7. 37
8.	दी सीतलपुर सूगर वर्क्स लि०, पो० ओ० गारोल, जिला मुजफ्फरपुर ।	7. 37
9.	श्री हनुमान सूगर एंड इन्डस्ट्रीज लि०, मोतीहारी, जिला चम्पारन ।	7. 44
10.	मोतीलाल पदमपत सूगर मिल्स कं० प्रा० लि०, मझौलिया, जिला चम्पारन ।	7. 57
11.	चम्पारन सूगर कं० लि०, चनपटिया फैक्ट्री ब्रांच, पो० ओ० चनपटिया, जिला चम्पारन ।	7. 37
12.	श्री कृष्णा ज्ञानोदय सूगर लि०, लौरिया पो० ओ०, चम्पारन ।	7. 37
13.	नार्थ बिहार सूगर मिल्स लि०, बगहा, पो० ओ० न रेपुर, जिला चम्पारन ।	7. 37
14.	दी न्यू स्वदेशी सूगर मिल्स लि०, नरकटियागंज, जिला चम्पारन ।	7. 70
15.	हरिनगर सूगर मिल्स लि०, पो० ओ० हरिनगर, जिला चम्पारन ।	8. 10
16.	दी सगौली सूगर वर्क्स प्रा० लि०, पो० ओ० सगौली, जिला चम्पारन ।	7. 37
17.	चम्पारन सूगर कं० लि० बराई फैक्ट्री ब्रांच, पो० ओ० बड़ाछकिया, जिला चम्पारन ।	7. 37
18.	न्यू सावन मिल्स, पो० ओ० सिवान, जिला सारण ।	7. 70
19.	दी बहार सूगर वर्क्स ब्रांच आफ दी इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि० पचरूखी, जिला सारण ।	7. 37
20.	श्री कृष्णा ज्ञानोदय सूगर लि०, हथुआ, पो० ओ० मीरगंज, जिला सारण ।	7. 50
21.	भारत सूगर मिल्स लि०, सिधवलिया पो० ओ०, जिला सारण ।	7. 50
22.	कानपुर सूगर वर्क्स लि० मरहवरा फैक्ट्री ब्रांच, मरहवरा पो० ओ०, जिला सारण ।	7. 57

1	2	3
23	सासा मूसा सूगर वर्कस प्रा० लि०, सासा मूसा पो० ओ०, जिला सारण ।	7.37
24	दी विष्णु सूगर मिल्स लि०, पो० ओ० विष्णु सूगर मिल्स, गोपालगंज, जिला सारण ।	7.44
25	श्री कृष्णा ज्ञानोदय सूगर लि०, पो० ओ० सिवान, जिला सारण ।	7.37
26	दी पूर्नियां कोओपरेटिव सूगर फैक्ट्री लि०, बनमंखी, जिला पूर्नियां ।	7.37
27	गुरारू भीनी मिल्स, पो० ओ० गुरारू मिल्स, जिला गया ।	7.37
28	साउथ बिहार सूगर मिल्स लि०, बिहटा, जिला पटना ।	7.37

पश्चिमी बंगाल

दी राम नगर केम एंज सूगर कं० लि०, प्लासी पो० ओ०, जिला नदिया ।	7.57
--	------

भासास

दी भासास को-ओपरेटिव सूगर मिल्स लि०, पो० ओ० बरुआ बामुनगांव, सब डिबीजन गोलाघाट, जिला मिर्जापुर ।	7.37
--	------

उड़ीसा

1 जयपुर सूगर कं० लि०, रायगावा, जिला कोरापुट ।	7.37
2 दी ग्रसक को ओपरेटिव सूगर इन्डस्ट्रीज लि०, पो० ओ० ग्रसक, जिला गंजम ।	7.57

राजस्थान

1 दी मेवाड़ सूगर मिल्स लि०, भूपाल सागर, जिला उदयपुर ।	7.37
2 दी गंगा नगर सूगर मिल्स लि०, श्री गंगा नगर पो० ओ० जिला श्री गंगानगर ।	7.37
3 श्री केशोराय प टन, सहकारी सूगर मिल्स लि०, बूंदी रोड, ड० घ० केशोराय पाटन, जिला बूंदी ।	7.37

मध्यप्रदेश

1 दी ग्वालियर सूगर कं० लि०, पो० ओ० डबरा, जिला ग्वालियर ।	7.37
2 दी जावरा सूगर मिल्स प्रा० लि०, जावरा, जिला रतलाम ।	7.37
3 दी जीवाजी राव सूगर कं० लि०, दलोडा, जिला मंडसौर ।	7.63
4 दी भोपाल सूगर इन्डस्ट्रीज लि०, सेहोर, जिला सेहोर ।	7.37
5 सेठ गोविन्द राम सूगर मिल्स, पो० ओ०, महीदपुर रोड, जिला उज्जैन ।	7.77

1

2

3

महाराष्ट्र

1	दी सासवड माली सूगर फैक्ट्री लि०, पो० ओ० माली नगर, जिला शोलापुर ।	7. 83
2	दी त्रिहेम महाराष्ट्र सूगर सिंडीकेट लि०, पो० ओ० श्रीपुर, जिला शोलापुर ।	8. 10
3	यशवन्त सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० ओ० आक्लुज, जिला शोलापुर ।	8. 23
4	श्री शंकर सहकारी सखर कारखाना लि०, सदाशिवनगर नगर, तालुका मासशिरास जिला शोलापुर ।	7. 37
5	वी रावलगांव सूगर फार्म लि०, पो० ओ० रावलगांव, जिला नासिक ।	8. 10
6	भीरना सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० ओ० दामादी, तालुका मागांव, जिला नासिक ।	8. 56
7	निफाड सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० ओ० मौसाहेब नगर, जिला नासिक ।	8. 49
8	दी गोदावरी सूगर मिल्स लि०, पो० ओ० साकरवाडी, जिला अहमदनगर ।	8. 36
9	दी गोदावरी सूगर मिल्स लि०, पो० ओ० लक्ष्मीवाडी, जिला अहमदनगर ।	8. 69
10	श्री बंगदेव सूगर मिल्स लि०, पो० ओ० बंगदेव नगर, जिला अहमदनगर ।	8. 23
11	दी महाराष्ट्र सूगर मिल्स लि०, पो० ओ० सिलक नगर, जिला अहमदनगर ।	8. 69
12]	दी कोपरगांव सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० ओ० कोल्हेवाडी, जिला अहमदनगर ।	8. 43
13	दी बलापुर क० लि०, पो० ओ० हरिगांव जिला अहमदनगर ।	8. 69
14	दी प्रवाड सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० ओ० प्रवाडानगर, जिला अहमदनगर ।	8. 23
15	अशोक सहकारी सखर कारखाना लि०, अशोकनगर, पो० श्री रामपुर, जिला अहमदनगर ।	8. 36
16	गणेश सहकारी सखर कारखाना लि०, गणेशनगर, पो० ओ० रंजनगांव खुर्द, जिला अहमदनगर ।	8. 23
17	दी संजिवनी (सक्ली) सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० ओ० कोपर गांव जिला अहमदनगर ।	8. 56
18	वी राहुरी सहकारी सखर कारखाना लि०, श्री शिवाजी नगर, पो० ओ० राहुरी फैक्टरी ब्रांच, जिला अहमदनगर ।	8. 23
19	दी श्री गोंडा सहकारी सखर कारखाना लि०, श्री गोंडा, पो० ओ० वेल्हडी, जिला अहमदनगर ।	7. 44
20	संगमनेर भाग सहकारी सखर कारखाना लि०, संगमनेर, जिला अहमदनगर ।	7. 57

1	2	3
21	बी भोगावटी सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० भो० शाहुनगर, जिला कोलापुर।	9.22
22	बी कोलापुर सूगर मिल्स लि०, कस्बा बायडा, पो० भो० कोलापुर, जिला कोलापुर।	8.89
23	श्री पंचगंगा सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० भो० इचलाकरंजी, जिला कोलापुर।	8.56
24	श्री वरना सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० वरना नगर, जिला कोलापुर।	8.56
25	कुम्भी-केसरी सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० कोपरडे, जिला कोलापुर।	8.89
26	बुधगंगा-वेदगंगा सहकारी सखर कारखाना लि०, बिदरी, पो० भो० मौनी नगर, जिला कोलापुर।	8.95
27	श्री दत्ता सहकारी गुल वा खांडसारी सखर उत्पादक संस्था लि०, असहले, तहसील पनहोल जिला कोलापुर।	7.37
28	बालचम्ब नगर इन्डस्ट्रीज लि०, पो० भो० बालचम्ब नगर, जिला पूरनिया।	7.77
29	श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० भो० भवानी नगर, जिला पूरनिया।	7.96
30	बी मालेगांव सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० भो० मालेगांव बी० के, जिला पूरनिया।	8.10
31	श्री सोमेश्वर सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० भो० भीरा, जिला पूना।	8.76
32	यशवंत सहकारी कारखाना लि०, डा० थ० थूर, तालुका हवेली, जिला पूना।	8.23
33	गंगापुर सूगर मिल्स लि०, पो० भो० रघुनाथ नगर, जिला श्रीरंगाबाद।	7.90
34	कृष्णा सहकारी सखर कारखाना लि०, रेठारे बुरुक, पो० भो० शिवनगर, जिला सतारा।	9.22
35	श्री राम सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० भो० फाल्टन, जिला सतारा।	7.90
36	बी फाल्टन सूगर वर्क्स लि०, पो० भो० साखरवाडी, जिला सतारा।	8.23
37	शेतकारी सहकारी सखर कारखाना लि०, पो० भो० सांगलीजिला सांगली।	8.36
38	टेरना शेतकारी सहकारी सखर कारखाना लि०, डौकी, तालुका तथा जिला श्रीसमानाबाद।	8.36
39	कालम्बर विभाग सहकारी सखर कारखाना लि०, कालम्बर, तालुका कंधार, जिला नानदेद।	7.83
40	श्री पनजारा कन सहकारी सखर कारखाना लि०, मावुने, तालुका सत्री, जिला बुलया।	7.37

1	2	3
41	बाल्वा तालुका सहकारी शकर कारखाने लि०, इस्लामपुर, पोस्ट बीरगांव, जिला सांगली ।	7.37

गुजरात

1	श्री खेधुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, सरदार बाग, बारदीली, जिला सूरत ।	7.57
2	श्री माधौ विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, माधौ, जिला सूरत ।	7.90
3	दी सहकारी खांड उद्योग मंडल लि०, गणदेवी, वाया विलिमोडा, जिला बुलसर ।	7.37
4	श्री बिलेश्वर खांड उद्योग खेधुत सहकारी मंडली लि०, कौदीनर, जिला भ्रमरेली ।	8.16
5	श्री ऊना तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, गिर गवाद रोड, ऊना (सौराठ) जिला ऊना गढ ।	7.77

आन्ध्रप्रदेश

1	दी किरलामपुडी सूगर मिल्स लि०, पिथापुरम, जिला पूर्वी गोदावरी ।	7.44
2	श्री मरिया सूगर लि०, चेल्लू, वाया रामचन्द्रपुरम, जिला पूर्वी गोदावरी ।	7.37
3	दी इक्कन सूगर एन्ड आबकारी कं० लि०, पी० श्री० सामलकोट, जिला पूर्वी गोदावरी ।	7.60
4	दी आन्ध्र सूगरस लि०, तालुकु, जिला पश्चिमी गोदावरी ।	7.37
5	दी पलाकौल कौप्रोपरेटिव अग्रिकलचर एन्ड इन्डस्ट्रीयल सोसायटी लि०, पलाकौल, जिला पश्चिमी गोदावरी ।	7.37
6	वी० वी० एस० सूगरस (दी जयपुर सूगर कं० लि०), पी० श्री० चगाल्लु, जिला पश्चिमी गोदावरी ।	7.37
7	सिवाकामी सूगरस लि०, तालुकु, जिला पश्चिमी गोदावरी ।	7.37
8	दी चोदावरम कौ-आपरेटिव अग्रिकलचर एन्ड इन्डस्ट्रीयल सोसायटी लि० (सूगर मैन्यूफैक्चर) (चोदावरम, जिला विशाखापटनम ।	7.63
9	अनाक पल्ले कौ-आपरेटिव अग्रिकलचर एन्ड इन्डस्ट्रीयल सोसायटी लि०, अनाकापल्ले, पी० श्री० जिला विशाखापटनम ।	8.03
10	दी एलिकौप्पाका कौ-आपरेटिव अग्रिकलचर एन्ड इन्डस्ट्रीयल सोसायटी लि०, पी० श्री० एलिकौप्पाका, जिला विशाखापटनम ।	7.77
11	दी थोडवा कौ-आपरेटिव अग्रिकलचर एन्ड इन्डस्ट्रीयल सोसायटी लि०, पी० श्री० पयाकराकयेट, जिला विशाखापटनम ।	8.03
12	श्री राभा सूगरस एन्ड इन्डस्ट्रीयल लि०, सीयानगरम, जिला श्री काकुलस ।	7.60

1	2	3
13	श्री रामा सुगरस एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, बीबेबीली, जिला श्री काकुलम ।	7.50
14	अमदालवालसा कौ-आपरेटिव प्रिक्कलवर एण्ड इन्डस्ट्रीयल सोसायटी लि०, अमदालवालसा पी० औ० जिला श्री काकुलम ।	7.83
15	दी के० सी० पी० लि०, व्युंयूरु, जिला कृष्णा ।	7.37
16	चल्लापल्ली सुगरस लि०, पी०औ० चरलापल्ली, जिला कृष्णा ।	7.37
17	दी निजाम सुगरस लि०, शकर नगर, जिला निजामाबाद ।	8.10
18	दी निजामाबाद, कौ-आपरेटिव सुगर फक्टरी लि०, निजामाबाद, जिला निजामाबाद ।	7.57
19	दी चित्तूर कौ-आपरेटिव सुगरस लि०, चित्तूर, जिला बिरबुर ।	7.37

तमिल नाडु

1	दी दक्कन सुगर एण्ड आबकारी कं० लि०, पी०औ० पुगापुर सुगर फॅक्ट्री, जिला तिरुचिरापल्ली ।	7.37
2	कावेरी सुगरस एण्ड केमिकल्स लि०, कावेरी फॅक्ट्री, पेट्टाईकलहा, जिला तिरुचिरापल्ली ।	7.37
3	कोडारी सुगरस एण्ड केमिकल्स लि०, काट्टूर, रेलवे स्टेशन लालंगुडी जिला तिरुचिरापल्ली ।	7.37
4	ई० आई० डी० पी० लि०, नेल्लुकुप्पाम पी०औ० जिला दक्षिणी आरकोट ।	7.37
5	दी साउथ इण्डिया स्टील एण्ड सुगरस लि०, पडियामयाक्कम, चिल्लुपुरम तालुका, जिला दक्षिणी आरकोट ।	7.37
6	अरुणा सुगरस लि०, पेन्नादाम, जिला दक्षिणी आरकोट ।	7.37
7	कल्ला कुरीची कौ-आपरेटिव सुगर मिल्स लि०, पी०औ० जिला मूंगील्यूरीपाट्टूर, कल्ला कुरीची तालुका, जिला दक्षिणी आरकोट ।	7.37
8	दी मदुरा सुगरस एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स लि०, पांडियाराजापुरम पी० औ० जिला मदुराई ।	7.37
9	दी नेशनल कौ-आपरेटिव सुगर मिल्स लि० ए० 2731, अलंगानाल्लुरे पी० औ० जिला मदुराई ।	7.37
10	दी थीरु अरुन सुगरस लि०, पी०औ० वावापाषी मंगलम्, जिला तंजोर ।	7.37

1	2	3
11	अमरावती कौ-आपरेटिव सूगर मिल्स लि०, ए०के० पुष्प पौ०अ० वाया कनीयूर । जिला कौयम्बटूर ।	7.37
12	दी शिक्त सूगरस लि०, पौ०अ० अण्णाकुडाल, जिला कौयम्बटूर ।	7.37
13	नार्थ आरकोट जिला कौ-आपरेटिव सूगर मिल्स लि०, बादापुडुपेट, अम्बूर पौ०अ०, जिला उत्तरी आरकोट ।	7.37
14	पालार सूगरस (प्रा०) लि०, मेलपट्टी उत्तर आरकाट जिला	7.37
15	दी मदुरतांकम कौ-आपरेटिव सूगर मिल्स लि०, पावलम, जिला शिंगलेपुर	7.37
16	दी सलेम कौ-आपरेटिव सूगर मिल्स लि०, मौहानूर वाया कारूर (नामाक्वल तलुका जिला सलेम ।	7.37

मसूर

1	दी मैसूर सूगर कं० लि०, मांड्या, जिला मांड्या ।	7.50
2	पांडवापुरा सहकारा शक्करे कारखाने लि०, पांडवापुरा, जिला मांड्या ।	8.49
3	दी इण्डिया सूगरस एण्ड रिफाइनरीज लि०, हौसपेट, जिला बेल्लारी ।	7.37
4	दी बेल्लारी सेण्ट्रल कौ-आपरेटिव स्टोर्स, सूगर फैक्ट्री, काम्पली पौ०अ० जिला बेल्लारी ।	7.50
5	दी सलार जंग सूगर मिल्स लि०, मुनीराबाद जिला रेचूर ।	7.37
6	दी उगर सूगर वर्क्स लि०, पौ०अ० उगर खुर्द, जिला बेलागाम ।	8.10
7	श्री हृण्णकेशी सहकारी शक्करे कारखाने नियमित, संकेश्वर, जिला बेलागाम	8.69
8	तुगमत्रा सूगर वर्क्स (प्राइवेट) लि०, शिमोगा, जिला शिमोगा ।	7.77
9	गोरीबिदानूर, सहकारी शक्करे कारखाने लि० गोरीबिदानूर, जिला कौलार ।	7.83
10	दी बिड़ार सहकारा शक्करे कारखाने लि० बिड़ार जिला बिड़ार ।	7.90

केरल

1	दी त्रावनकोर सूगरस एण्ड केमिकल्स लि०, पम्मा रिबर फैक्ट्री तिसवल्ला पौ०अ० जिला बिकलम ।	7.37
2	दी मन्नम सूगर मिल्स कौ-आपरेटिव लि०, सं० 4324, पांडिलम पौ० अ० जिला अल्लपि ।	7.37
3	दी कौ-आपरेटिव सूगरस लि०, चित्तूर, पौ० अ० मेननपारा, जिला पालघाट	7.50

1

2

3

पांडीचेरी

1 न्यू हौरीजन सुगर मिल्स कं० लि०, सवळूर (अरिझौर), पांडीचेरी ।

7.37

[सं 3-16/69-एस०पी०वाई]

र० स० तलवाड़ संयुक्त सचिव ।

